

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013—चैत्र 1, शक 1935

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. जनगणना-लेखा-2013-592.—राज्य शासन के गृह सामान्य विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता को जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5-16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य को पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र.	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसीलदार, सिवनी	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, सिवनी.	तहसील सिवनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसीलदार, कुरई	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, कुरई.	तहसील कुरई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसीलदार, बरघाट	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, बरघाट	तहसील बरघाट के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	तहसीलदार, केवलारी	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, केवलारी	तहसील केवलारी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसीलदार, छपारा	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, छपारा.	तहसील छपारा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसीलदार, लखनादौन	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, लखनादौन.	तहसील लखनादौन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसीलदार, धनौरा	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, धनौरा.	तहसील धनौरा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसीलदार, घंसौर	तहसीलदार	उप-जिला रजिस्ट्रार, घंसौर.	तहसील घंसौर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र, (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका सिवनी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, सिवनी.	नगरपालिका सिवनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र
10.	नगर पंचायत, लखनादौन	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, लखनादौन.	नगर पंचायत लखनादौन के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर पंचायत, बरघाट	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगरपंचायत, बरघाट	नगर पंचायत बरघाट के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
13	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन, गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2011-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेगा.

स्थान : सिवनी

अजीत कुमार, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 19-जनगणना-2013.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता

अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-

क्रम संख्या (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील अजयगढ़	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील अजयगढ़.	तहसील अजयगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील पन्ना	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पन्ना.	तहसील पन्ना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील देवेन्द्रनगर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील देवेन्द्रनगर.	तहसील देवेन्द्रनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील अमानगंज	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील अमानगंज.	तहसील अमानगंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील गुनौर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील गुनौर.	तहसील गुनौर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसीलदार, पवई	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पवई.	तहसील पवई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसीलदार, शाहनगर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील शाहनगर.	तहसील शाहनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील रैपुरा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील रैपुरा.	तहसील रैपुरा अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	नगरपालिका, पन्ना	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, पन्ना.	नगरपालिका पन्ना के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर परिषद, अजयगढ़	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद, अजयगढ़.	नगर परिषद, अजयगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर परिषद, देवेन्द्रनगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद, देवेन्द्रनगर.	नगर परिषद, देवेन्द्रनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगर परिषद, अमानगंज	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद, अमानगंज.	नगर परिषद, अमानगंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर परिषद, पवई	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद, पवई.	नगर परिषद, पवई के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर परिषद, ककरहटी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद, ककरहटी.	नगर परिषद, ककरहटी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
16	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक/नगरों/नगरपालिका/नगरपरिषद/ के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

**धनंजय सिंह**, कलेक्टर एवं उपसचिव एवं  
जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Panna, the 4th March 2013

No. 19-jang-2013.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD, Order No. F. 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February, 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February 2012 & under rules 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizen and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following Officers are appointed as the Register for preparation of National Population Register with NPR designation mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operation within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of the Schedule :—

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Tahsil Ajaygarh	Tahsildar	Sub-District Registrar, Ajaygarh.	Entire Tahsil Ajaygarh (excluding urban areas).
2	Tahsil Panna	Tahsildar	Sub-District Registrar, Panna.	Entire Tahsil Panna (excluding urban areas).
3	Tahsil Devendranagar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Devendranagar.	Entire Tahsil Devendranagar (excluding urban areas).
4	Tahsil Amanganj	Tahsildar	Sub-District Registrar, Amanganj.	Entire Tahsil Amanganj (excluding urban areas).
5	Tahsil Gunnour	Tahsildar	Sub-District Registrar, Gunnour.	Entire Tahsil Gunnour (excluding urban areas).
6	Tahsil Pawai	Tahsildar	Sub-District Registrar, Pawai..	Entire Tahsil Pawai (excluding urban areas).
7	Tahsil Shahnagar	Tahsildar	Sub-District Registrar, Shahnagar.	Entire Tahsil Shahnagar (excluding urban areas).
8	Tahsil Rajpura	Tahsildar	Sub-District Registrar, Rajpura.	Entire Tahsil Rajpura (excluding urban areas).
9	Municipality, Panna	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Panna.	Entire Tahsil Panna (excluding urban areas).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Nagar Parishad Ajaygarh	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Ajaygarh.	Entire Tahsil Ajaygarh (excluding urban areas).
11	Nagar Parishad Devendranagar	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Devendranagar.	Entire Tahsil Devendranagar (excluding urban areas).
12	Nagar Parishad Amanganj	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Amanganj.	Entire Tahsil Amanganj (excluding urban areas).
13	Nagar Parishad Pawai	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Pawai.	Entire Tahsil Pawai (excluding urban areas).
14	Nagar Parishad Kakrahti	Chief Municipal Officer.	Sub-District Registrar, Municipality, Kakrahti.	Entire Tahsil Kakrahti (excluding urban areas).
15	Respective Village(s)	Patwari	Local Registrar	Entire area of respective Village/ Census Town/Out Growth.
16	Respective Ward(s)	Revenue Inspector/ Health Inspector/ Sanitary Inspector/ Asstt. Revenue Inspector/ Tax Collector.	Local Registrar	Entire Urban area in respective Wards of Statutory Towns. (Municipal Corporations/ Municipalities/ Cantonment Board/Nagar Parishad.

The Sub-District Registrar to appoint Local Registrars at their level as per Govt. Order No. F-10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

DHANANJAY SINGH, Collector & Dy. Secy.  
and District Registrar (NPR).

### कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. जनगणना-2013-13.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 22-2012, मण्डला दिनांक 23 नवम्बर 2012 में क्रम संख्या 7 संशोधित करते हुये निम्नानुसार क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील मण्डला	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मण्डला.	तहसील मण्डला के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	तहसील निवास	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील निवास.	तहसील निवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील बिछिया	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बिछिया.	तहसील बिछिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील नैनपुर	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नैनपुर.	तहसील नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील नारायणगंज	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील नारायणगंज.	तहसील नारायणगंज के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील घुघरी	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील घुघरी.	तहसील घुघरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7			पृथक् से प्रेषित.	
8	नगरपालिका, नैनपुर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, नैनपुर.	नगरपालिका नैनपुर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बम्हनी बंजर.	नगर पंचायत बम्हनी बंजर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बिछिया.	नगर पंचायत बिछिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप-जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, निवास.	नगर पंचायत निवास के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
13	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : मण्डला

दिनांक

स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

मण्डला, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. जनगणना-2013.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं

18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 22-2012, मण्डला दिनांक 23 नवम्बर 2012 में क्रम संख्या 7 संशोधित करते हुये निम्नानुसार क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	लिखा गया प्रशासनिक क्षेत्र (5)	संशोधन उपरान्त लिखा जाने संबंधी प्रशासनिक क्षेत्र (6)
7	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.	संबंधित नगरों (नगर निगम/ नगरपालिका/छावनी बोर्ड/ नगर परिषद के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पढ़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : मण्डला

दिनांक :

स्वाति मीणा, कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

## कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. 1357-जनगणना-2013.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	प्रशासनिक क्षेत्र (5)
1	तहसील सोहागपुर	तहसीलदार, सोहागपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सोहागपुर.	तहसील सोहागपुर के अन्तर्गत पढ़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील जैतपुर	तहसीलदार, जैतपुर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जैतपुर.	तहसील जैतपुर के अन्तर्गत पढ़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील जयसिंहनगर	तहसीलदार, जयसिंहनगर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जयसिंहनगर.	तहसील जयसिंहनगर के अन्तर्गत पढ़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील ब्यौहारी	तहसीलदार, ब्यौहारी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील ब्यौहारी.	तहसील ब्यौहारी के अन्तर्गत पढ़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	नगरपालिका, शहडोल	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, शहडोल.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, शहडोल.	नगरपालिका शहडोल के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
6	नगरपालिका, धनपुरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, धनपुरी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, धनपुरी.	नगरपालिका धनपुरी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
7	नगरपालिका, बुढ़ार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बुढ़ार.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बुढ़ार.	नगरपालिका बुढ़ार के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8	नगरपालिका, जयसिंहनगर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जयसिंहनगर	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, जयसिंहनगर.	नगरपालिका जयसिंहनगर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगर पालिका, ब्यौहारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ब्यौहारी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, ब्यौहारी.	नगरपालिका ब्यौहारी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	नगर पालिका, खांड	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खांड.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, खांड (बाण सागर)	नगरपालिका खांड (बाणसागर) के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
12	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित वार्ड/ जनगणना नगर/ बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : शहडोल  
दिनांक

अशोक कुमार भार्गव, जिलाध्यक्ष एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).